



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072025-264466
CG-DL-E-08072025-264466

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 2025/आषाढ 17, 1947

No. 414]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 2025/ASHADHA 17, 1947

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 457(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एक साल में केवल एक सौ पच्चीस रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमाएं और संरचना.- नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पच्चीस रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	शुद्ध चांदी चांदी- 99.9 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.**— सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. **मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.**—डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर को मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

एक सौ पच्चीस रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “125” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र होगा। चित्र के बाईं ओर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में ‘1901’ और दाईं ओर ‘2026’ उत्कीर्ण होगा। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में ‘2025’ उत्कीर्ण होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती” तथा निचली परिधि पर अंग्रेजी में “125TH BIRTH ANNIVERSARY OF DR. SYAMA PRASAD MOOKERJEE” उत्कीर्ण होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पच्चीस रुपये	40 ग्राम	प्रति 1000 में चांदी का 999 अंश। चांदी के अंश में 999 और उसके ऊपर तक का अंतर हो सकेगा।	1/8000वां हिस्सा जोड़ कर या घटाकर, अर्थात् वजन में 39.995 ग्राम से 40.005 ग्राम तक का अंतर हो सकता है।

[फा. सं. 02/12/2025- सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2025

G.S.R. 457(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of 125th Birth Anniversary of Dr. Syama Prasad Mookerjee) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**— The coin of One Hundred Twenty-Five Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of 125th Birth Anniversary of Dr. Syama Prasad Mookerjee.

3. **Dimension and composition of coin.**- The denomination of coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Twenty-Five Rupees	Circular 44 millimeter	200	Pure Silver Silver 99.9%

4. **Design.**- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**- The standard weight of the coin of above denomination coined to commemorate the occasion of 125th Birth Anniversary of Dr. Syama Prasad Mookerjee and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

THE FIRST SCHEDULE

(See rule 4)

ONE HUNDRED TWENTY-FIVE RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “125” in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall feature the portrait of Dr. Syama Prasad Mookerjee at the centre. The year '1901' in international numerals shall be inscribed on the left side and the year '2026' shall be inscribed on the right side of the image. Below the image of Dr. Syama Prasad Mookerjee, the year '2025' in international numerals shall be inscribed. On the upper periphery of the coin, the inscription “डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती” shall be written in Devanagari script, and the inscription “125TH BIRTH ANNIVERSARY OF DR. SYAMA PRASAD MOOKERJEE” shall be inscribed in English on the bottom periphery of the coin.

THE SECOND SCHEDULE

(See rule 5)

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Twenty-Five Rupees	40 Grams	999 parts of silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 999 and above.	1/8000th plus or minus that is to say weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.

[F. No. 02/12/2025-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser